



THE HI-TECH GEARS LTD.

CIN - L29130HR1986PLC081555

Corporate Office : Millennium Plaza, Tower-B, Sushant Lok-1, Sector-27, Gurugram -122009,
Haryana, INDIA Tel. : +91(124) 4715100

January 24, 2020

The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
"Exchange Plaza", C-1, Block – G.M.
Bandra - Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051
NSE Stock code – HITECHGEAR

The Manager,
Listing Department,
BSE Limited,
PhirozeJeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400001
BSE Stock code – 522073

Sub: Intimation regarding Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF) Account.


Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Section 124 and 125 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and applicable regulations of SEBI (LODR) Regulations, 2015 please find enclosed herewith an intimation in the form of Public Notice to the identified shareholders whose equity shares are qualified for transfer to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority account as required, published in the following newspapers:-

- Business Standard (National Daily Newspaper in English) - January 24, 2020
- Business Standard, New Delhi (Regional Daily Newspaper in Hindi) - January 24, 2020

You are requested to take the above information on records and oblige.

Thanking You
Yours faithfully,
For The Hi-Tech Gears Limited



Navdeep Jain
Company Secretary
Membership No:-A15237



www.thehitechgears.com

Works I : A-589, Industrial Complex, Bhiwadi - 301 019 Rajasthan INDIA Tel. : +91(1493) 265000

Regd. Office & Works-II : Plot No. 24 - 26 Sector-7, IMT Manesar - 122 050 Gurugram, Haryana INDIA Tel.: +91 (124) 4715200

Works-III : Plot No. SP-146A, Industrial Complex, Bhiwadi - 301019-Rajasthan INDIA

Head Office : C-41/B, Kalkaji, New Delhi - 110019 INDIA

Subsidiaries : The Hi-Tech Gears Canada. Inc. 361, Speedvale Ave W. Guelph, ON N1H 1C7, CANADA

Teurech LLC. 227, Barton St. Emporium. PA 15834, USA

iPhone stems 2018 slide as shipments grow 6%

However, 2019 shipments are still down more than a quarter from 2016

SARITHA RAI
23 January

Apple's iPhone shipments in India grew 6 per cent in 2019 compared with a 43 per cent decline in the previous year, stabilising its position in a rare market that still exhibits growth in smartphone demand.

Discounting the iPhone XR by \$250 in the middle of the year made it Apple's best-selling phone in the country, according to Counterpoint Technology Market Research. The fall introduction of the iPhone 11, with a reduced starting price, "helped to gain share during the festive



iQOO set to enter India with 5G smartphone

Counterpoint's data indicates that India's premium segment is growing at a 20 per cent rate, almost doubling the roughly 10 per cent growth of the local

Biocon Q3 PBT up 9%

SAMREEN AHMAD
Bengaluru, 23 January

Biotechnology major Biocon on Thursday posted a profit before tax (PBT) of ₹315 crore for the third quarter ended December 31, a muted rise of 9 per cent when compared with the corresponding period of the previous financial year.

The net profit for the period declined 7 per cent to ₹203 crore on YoY basis. Excluding the exceptional item, profit grew 6 per cent. Net R&D expenses at ₹131 crore, which were up by 71 per cent YoY, too, pulled down the profit.

"We witnessed a strong revenue growth of 14 per cent to ₹1,784 crore in Q3FY20, led by biologics, small molecules and research services businesses. We continued our journey of increasing access to high quality biosimilars and commercialised our biosimilar Trastuzumab in the US, Canada and many EU markets this quarter," said Kiran Mazumdar-Shaw, chairperson and managing director, Biocon. The consolidated Ebitda margin stood at 27 per cent in Q3FY20.

Mondelez pays over ₹400 to settle tax dispute in India

Mondelez India Foods Private Limited, manufacturer of snacks, paid over ₹400 crore to settle a tax dispute involving the company in India, officials said on Thursday. The Directorate of Intelligence (DGCEI) had in 2011 initiated a probe against the company for allegedly misusing "area-based exemption" for a new area in Pradesh to avail excise duty benefits, even before it came into effect. The DGCEI is now known as the Directorate of Intelligence (DGGSTI).

Bounce, a motorcycle and scooter sharing start-up, which recently raised \$105 million (₹750 crore), plans to expand in this country and also get into markets abroad.



Bounce recently raised \$105 mn in Series-D round

Asia," said Anil. The \$105 million was from a Series-D funding led by Accel, a leading venture capital entity, and B Capital Group, a global technology fund. Existing investors Accel Partners India, Chiratae Ventures, Falcon Edge, Maverick Ventures, Omidyar Network India, Qualcomm Ventures and Sequoia Capital India also participated.

The investment more than doubles the company's valuation, to over \$500 million, from its previous funding round last June when the estimate was \$220 million, according to sources. The new funding, which takes the total raised to \$194 million, will fuel a deeper electric vehicle (EV) integration and help drive profitability, said the company.

THE HI-TECH GEARS LIMITED

CIN: L29130HR1986PLC081555

Regd. Off: Plot No 24, 25 & 26, Sector-7, IMT Manesar, Gurgaon-122050, Haryana

Corp. Off: Millennium Plaza, Tower-B, Sushant Lok-I, Sector-27

Gurgaon-122009, Haryana.

Tel.: + 91(124) 4715100 Fax: + 91(124) 2806085

Website: www.thehitechgears.com E-mail: secretarial@thehitechgears.com

NOTICE

(For the attention of Equity Shareholders of the Company)
Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account

Notice is hereby given to the shareholders of the Company pursuant to the provisions of Section 124 & 125 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time.

The Company is required to transfer the shares in respect of which the Interim Dividend declared for the Financial Year 2012-13, remain unpaid or unclaimed by the shareholders for seven consecutive years or more to the Account as notified by the IEPF Authority.

The Company has sent individual communication to those shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Account under the said Rules at their latest available address and also uploaded the details of such shareholders on its website i.e. www.thehitechgears.com. Shareholders are requested to verify the details of unclaimed dividends and the shares, liable to be transferred to IEPF Account.

Shareholders may note that in case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by March 21, 2020 or such other date as may be extended, the Company shall, with a view to comply with the requirements set out in the Rules, transfer the shares to the "IEPF Account" by the due date as per procedure stipulated in the Rules or any amendment thereafter and no claim shall, however, lie against the Company in respect of the said unclaimed dividends and the shares transferred under the above Rules. The shares, so transferred can only be claimed back from IEPF authority after following the procedure prescribed under the rules.

In case the shareholders have any queries, they may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. M/s. MAS Services Limited, T-34, 2nd Floor Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020, Ph. 011-26387281-83 or send an email at info@masserv.com. Members may also write to the Company Secretary at the above address/e-mail.

For The Hi-Tech Gears Limited
Sd/-
Naveen Jain
Company Secretary

Place : Gurgaon



- Driving Make in India, Digital India, Skill India
- Electronic Manufacturing facilities across India
- State-of-the-art Infrastructure
- Turnkey Solution provider in Telecom & Defence Sectors
- Major projects - BharatNet, Secured Defence Projects, IOT & Smart City

TELECOM | DEFENCE | IOT-ICT | SMART CARD | S

ITI Limited is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a further public offer of its equity shares ("Equity Shares") and has filed a red herring prospectus with the Securities and Exchange Board of India and the Registrar of Companies, Karnataka situated at Bengaluru. The RHP is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the website of the managers, BOB Capital Markets Limited, Karvy Investor Services Limited and PNB Investment Services Limited at www.bobcaps.in, www.karvyinvestmentbanking.com and www.pnbisl.com, respectively. Investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, see "Risk Factors" on page 14 of the RHP.

This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States unless registered under the US Securities Act of 1933 or an exemption from such registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. No public offering or sale of securities in the United States is being made.

ITI
LIMITED
(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय: येस बैंक टॉवर, आईएफसी-2, 15वां तल, सेनापति बाग मार्ग, एनसिटी (परिम), मुंबई-400013
कार्यालय: नेहरू कॉम्प्लेक्स, 8वां तल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, डॉ. ए.बी. रोड, वर्ली, मुंबई-400018.
 फोन: +91 (22) 6669 9000, फैक्स: 91 (22) 2490 0314 सीआईएस: L65190MH2003PLC143249
 ईमेल: communications@yesbank.in, वेबसाइट: www.yesbank.in

[नियम-8(1)] कब्जा सूचना

जबकि, येस बैंक लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अखिलिखित कर्जदारों, सह-कर्जदार/जमानती/बैंककर्ताओं को मांग सूचना जारी की थी जिसमें उक्त सूचना में उल्लिखित राशि और इस पर नवीन की व्याज व अन्य प्रमाणों को उक्त सूचना प्राप्त की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया। कर्जदारों और सह-कर्जदार/जमानतियों/बैंककर्ताओं द्वारा पूरी राशि अदा न कर पाने पर कर्जदारों और सह-कर्जदार/जमानतियों/बैंककर्ताओं तथा जन सामान्य को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का दिनांक **22 जनवरी, 2020** को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों और सह-कर्जदार/जमानतियों/बैंककर्ताओं तथा सरंज का सामान्य रूप में उक्त संपत्ति से कोई भी लेनदेन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा उक्त संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन नीचे वर्णित राशि और इस पर व्याज एवं लागतों के लिए येस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रत्येक प्रतिभूतियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानती(ओं)/प्रतिभूति प्रदाता/ओं के नाम	मांग सूचना की तारीख	मांग सूचना राशि	कब्जे की तारीख	प्रत्याभूत परिसंपत्ति/अवश संस्थितियों का विवरण
1. मेसर्स कर्जियों टैकनोवेशन अपने प्रमोअर के माध्यम से, श्री ललित मुदा, 105, एफएफ, अनुमन प्लाजा-2, डीडीए प्लॉट नं. 5, गाजीपुर, दिल्ली-110092 ("कर्जदार")	31 अक्टूबर, 2019	15,76,97,11/- दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 को	22 जनवरी 2020	श्री सीताराम मुदा द्वारा स्वामित्व संपत्ति प्लेट 76, चौथा तल, वरदान अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 64, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092, प्लॉट नं. 64, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092, मांग लागत 126.91 वर्ग मीटर के समस्त भाग व खंड
2. श्री ललित मुदा ("सह-कर्जदार")				
3. श्री सीताराम मुदा ("सह-कर्जदार और बैंककर्ता")				
4. श्रीमती मधु मुदा ("सह-कर्जदार")				
संबन्धित नं. 2, 3 और 4, निवासी: 76, वरदान अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 64, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092				
1. श्री विनोद नारयण पुत्र श्री अरवि सिंह, ("कर्जदार व बैंककर्ता")				श्री विनोद नारयण द्वारा स्वामित्व संपत्ति प्लेट नं. टी-005, टॉवर-टी, भूतल, स्टडीरूम अलगा, प्लॉट नं. जीएच-03, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा-201301, मांग लागत 1441 वर्ग फुट के समस्त भाग व खंड
2. श्रीमती अंजू नारयण ("सह-कर्जदार")				
संबन्धित नं. 1 और 2 निवासी: प्लॉट नं. 156, अचला गांव, अचला दादरी, गौतम बुद्ध नगर, निकट शिव मंदिर, ग्रेटर नोएडा-201306				
और यहाँ भी: गांव अछला बिन्नीली, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा-203207				
संबन्धित नं. 1 यहाँ भी: सेक्टर-5, निकट नीलम इंजीनियरिंग कॉलेज, गौतम बुद्ध नगर, नॉलेज पार्क-5, गांव वृंशियान, निकट आश्रमवाली मॉल, सुमिता मंडीकल कॉलेज, ग्रेटर नोएडा-201306				
यहाँ भी: प्लेट नं. टी-005, टॉवर-टी, भूतल, स्टडीरूम जीवन, प्लॉट नं. जीएच-03, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा-201301				

स्थान: दिल्ली व ग्रेटर नोएडा
 दिनांक: 24.01.2020

दि हार्ड-टेक गियर्स लिमिटेड
 CIN: L29130HR1986PLC081555
 पंजी. कार्यालय : प्लॉट नंबर 24, 25 & 26, आईएम्डी मानेश्वर, सेक्टर-7, गुडगांव-122050, हरियाणा
 कार्यालय : मिलेनियम प्लाजा, टावर-बी, सुभाष लोकर-1, सेक्टर-27, गुडगांव-122009, हरियाणा
 फोन : +91(124) 4715100 Fax: +91(124) 2806085
 वेबसाइट : www.thehitecgears.com, ई-मेल : secretarial@thehitecgears.com

सूचना
(कम्पनी के समता अंशधारकों के ध्यानार्थ)
कम्पनी के समता अंशों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईडीपीएफ) खाता में अंतरण

एतद्वारा समत-समत पर संगठिततानुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (नेशनल लेखापरीक्षण, अंतरण एवं प्रतिभूतिकरण) नियमावली, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 एवं 125 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के अंशधारकों को सूचना दी जाती है।

कम्पनी से अपेक्षित है कि वह उन अंशों का अंतरण करे जिनके संबंध में, वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु अंतरिम लेखापरीक्षा के अन्तर्गत आईडीपीएफ प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार खाता में सात निरंतर अवधि तक भूगतान नहीं किया अथवा जिस पर अंशधारकों द्वारा भूगतान का दावा नहीं किया गया।

कम्पनी ने उन अंशधारकों को व्यक्तिगत सूचना उनके नवीनतम उपलब्ध पता पर प्रेषित कर दी है जिनके अंशों को उक्त नियमावली के अन्तर्गत आईडीपीएफ खाता में अंतरित किया जाना है तथा ऐसे अंशधारकों के विवरणों को अपनी वेबसाइट अर्थात् www.thehitecgears.com पर अपलोड भी कर दिया गया है। अतः अंशधारकों से अनुरोध है कि वे आईडीपीएफ खाता में अंतरित किए जानेवाले दायारहित लेखाशेखों तथा अंशों के विवरणों का सत्यापन कर लें।

अंशधारक कृपया नोट कर लें कि यह कम्पनी को उक्त के संबंध में मार्च 21, 2020 अथवा विस्तारित किए जाने के बाद ऐसी किसी अन्य तिथि तक संबंधित अंशधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी, नियमावली में निर्धारित अवसरकालों को अनुपालन करने के विचार से, नियमावली में अनुबंधित प्रक्रियानुसार निवृत्त तिथि एवं इसके उपरान्त किसी संशोधन तक अंशों को "आईडीपीएफ खाता" में अंतरित कर देगी तथा तदुपरान्त उपरोक्त नियमावली के अन्तर्गत उक्त दायारहित लेखाशेखों और अंतरित अंशों के संदर्भ में कम्पनी के समस्त कोई भूगतान दावा नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार अंतरित किए गए अंशों को, नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के उपरान्त ही, आईडीपीएफ प्राधिकरण से, वापस पाने का दावा किया जा सकेगा है।

यदि अंशधारकों को इस संबंध में कोई प्रश्न सूचना है तो वे कम्पनी के रजिस्ट्रार और अंश अंतरण अधिकारी नामतः एमएस सर्विस लिमिटेड, टी-34, द्वितीय तल, ओल्हा आधुनिक क्षेत्र, फेज-11, नई दिल्ली-110020, दूरभाष 011-26387281-83 से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा info@masserv.com पर एक ई-मेल प्रेषित कर सकते हैं। सदस्यगण उपरोक्त पते/ई-मेल पर कम्पनी सचिव को भी लिख सकते हैं।

यदि दि हार्ड-टेक गियर्स लिमिटेड द्वारा, नवीन जैन कम्पनी सचिव स्थान : गुडगांव

बैंक ऑफ बड़ौदा
 Bank of Baroda
 India's International Bank
 क्रॉसिंग रिपब्लिक शाखा, गाजियाबाद, फोन नंबर 0120-4990858, ई-मेल: crogha@bankofbaroda.com

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ बड़ौदा, क्रॉसिंग रिपब्लिक शाखा, गाजियाबाद का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ऋण धारक मेसर्स कोशाभी पेपर मिल्स प्रा. लि. इसके निवेशक श्री नितिन त्यागी पुत्र श्री सुभाष त्यागी और श्री सुभाष त्यागी पुत्र श्री ओम प्रकाश त्यागी और गार्दर श्री नितिन त्यागी पुत्र श्री सुभाष त्यागी, श्री सुभाष त्यागी पुत्र श्री ओम प्रकाश त्यागी और श्रीमती कुसुम त्यागी पत्नी श्री सुभाष त्यागी को मांग सूचना दिनांक 04.11.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लिखित राशि रु 2,01,65,568.20 दिनांक 31.10.2019 तक बकाया (दिनांक 31.10.2019 तक व्याज सहित) प्लस दिनांक 01.11.2019 से अनापेक्षित व्याज और कैश क्रेडिट सुविधाओं में अन्य आकस्मिक खर्च और रु 1,62,81,293.48 दिनांक 31.10.2019 तक बकाया (दिनांक 08.10.2019 तक व्याज सहित) प्लस दिनांक 08.10.2019 से अनापेक्षित व्याज और टर्म लोन की सुविधाओं में अन्य आकस्मिक खर्च, रु 3,64,46,861.68 दिनांक 31.10.2019 तक बकाया प्लस कैश क्रेडिट सुविधाओं पर दिनांक 01.11.2019 से अनापेक्षित व्याज और टर्म लोन की सुविधाओं पर दिनांक 08.10.2019 से अन्य आकस्मिक खर्च इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भूगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभूतगान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उक्त प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अंतर्गत 20.01.2020 को लिया है।

विशेष रूप से ऋण धारक तथा जनसाधारण को एतद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ बड़ौदा, क्रॉसिंग रिपब्लिक शाखा, गाजियाबाद के प्रभार वास्ते रु 2,01,65,568.20 दिनांक 31.10.2019 तक बकाया (दिनांक 31.10.2019 तक व्याज सहित) प्लस दिनांक 01.11.2019 से अनापेक्षित व्याज और कैश क्रेडिट सुविधाओं में अन्य आकस्मिक खर्च और रु 1,62,81,293.48 दिनांक 31.10.2019 से अनापेक्षित व्याज और टर्म लोन की सुविधाओं में अन्य आकस्मिक खर्च, रु 3,64,46,861.68 दिनांक 31.10.2019 तक बकाया प्लस कैश क्रेडिट सुविधाओं पर दिनांक 01.11.2019 से अनापेक्षित व्याज और टर्म लोन की सुविधाओं पर दिनांक 08.10.2019 से अन्य आकस्मिक खर्च इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भूगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता का ध्यान एतद की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की और आकर्षित किया जाता है।

अवश संपत्ति का विवरण

- सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फैक्ट्री भूमि एवं भवन खसरा नं. 138एफ, गौंवा नाईपुर, खादर, गजरीला तहसील - धनीरा, जिला अमरसहा (यूपी), में स्थित, क्षेत्रफल 0.782 हेक्टर, यह सम्पत्ति श्री सुभाष त्यागी पुत्र श्री ओम प्रकाश त्यागी के नाम पर है। चौहद्दी: पूर्व में - श्री शरीफ का खेत, पश्चिम में - नाला अराजी नादिर अली, उत्तर में - चाक रोड, दक्षिण में - श्री शरीफ का खेत
- विद्यार्थी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. आर-12/24 राज नगर, गाजियाबाद (यूपी)-201001 में स्थित क्षेत्रफल 338 वर्ग गज या 282.601 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्री सुभाष त्यागी पुत्र श्री ओम प्रकाश त्यागी, श्रीमती कुसुम त्यागी पत्नी श्री सुभाष त्यागी और श्री नितिन त्यागी पुत्र श्री सुभाष त्यागी के नाम पर है। चौहद्दी: पूर्व में - आणंद चौकी रोड, पश्चिम में - मकान नं. आर-12/33 और 34, उत्तर में - मकान नं. आर-12/23, दक्षिण में - आर-12/25
- प्लॉट एवं मशीनरी जोकि फैक्ट्री भूमि एवं भवन खसरा नं. 138एफ, गौंवा नाईपुर, खादर, गजरीला तहसील - धनीरा, जिला अमरसहा (यूपी), में रखी है।

दिनांक: 20-01-2020, स्थान: गाजियाबाद / अमरसहा प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड
 CIN:U65990MH2010PTC240703
 Website: homefirstindia.com Phone No.: 180030008425
 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)
 चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (2002 का अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उच्चपर भावी ब्याज और आकस्मिक शुल्कों के साथ उक्त सूचना की तिथि के 60 दिनों के भीतर 03.11.2019 तक सूचना में वर्णित राशि रु. 10.81,097/- (रुपय दस लाख इक्यासी हजार और सतानवे केवल) राशि का भूगतान करने के लिए ऋणी अकिता गोयल व गगन गोयल को बुलाने के लिए मांग सूचना दिनांक 03.11.2019 जारी की थी। ऋणी राशि का भूगतान करने में असफल रहे, एतद्वारा ऋणी/ गार्दर व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के नियम 8 व 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर 20 जनवरी, 2020 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्वारा संपत्ति के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन उच्चपर भावी ब्याज और आकस्मिक शुल्कों के साथ 03.11.2019 तक रु. 10.81,097/- (रुपय दस लाख इक्यासी हजार और सतानवे केवल) राशि के लिए होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। ऋणियों का ध्यान प्रतिभूति संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।

अवल संपत्ति का विवरण
 प्लैट नं. 602, माप 460 वर्ग फुट, बिल्डिंग नं. बी-2, एंजलोन होमस, गांव मसित, भिवाड़ी-अल्टर बाईपास रोड, भिवाड़ी- 301019
 सीमाएं: पूर्व में : 6 मीटर चौड़ा अलवर-भिवाड़ी रोड, पश्चिम : गांव मसित का खसरा नं. 354
 उत्तर : गांव मसित का खसरा नं. 362
 दक्षिण : गांव हसनपुर की भूमि

स्थान: भिवाड़ी प्राधिकृत अधिकारी
 दिनांक: 24.01.2020 होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड

सेन्ट बैंक
 होम फायनेंस लिमिटेड
 Home Finance Limited
 (Subsidiary of Central Bank of India)
 Branch Office: 103-104, First Floor, 2E/23, Jhandewalan Extn, New Delhi - 110055
 (CIN No. U65922MP1991PLC006427)

कब्जा सूचना (अवश सम्पत्ति के लिए)

सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 (2002 का 54) की धारा 13(12), 13(2) संपठित नियम 9 एवं 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके निम्न ऋणगृहिता से सूचना प्राप्ति की दिनांक से 60 दिन के अन्दर संपूर्ण बकाया राशि अदा करने की अपेक्षा की गई थी। चूंकि ऋणगृहिता ने अदायगी में चूक की है अतः ऋणगृहिता तथा सर्वसाधारण जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा अधिनियम की धारा 14 संपठित नियम 8 एवं 9 नियमों के अन्तर्गत प्राप्त कर लिया है।

क्र. सं.	ऋणी का नाम	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना की राशि
1. <td>श्री हरिचरण सिंह शेखावत और इंदु शेखावत खाता संख्या 00602080001527</td> <td>दुकान नंबर एसएफ-03, दूसरी मंजिल, वी स्वचयण मॉल, मांग सैदपुर, जिला तिजरा, अलवर बाईपास, भिवाड़ी, राजस्थान। संपत्ति की सीमाएं - पूर्व: दोषा, पश्चिम: गलियारा, उत्तर: शॉप नं एसएफ-03, दक्षिण: शॉप नं एसएफ-04</td> <td>11.07.2019 21.01.2020 (मौक्तिक)</td> <td>3039816.00 + ब्याज एवं सभी अन्य खर्च - कोई राशि जमा की गयी हो तो</td>	श्री हरिचरण सिंह शेखावत और इंदु शेखावत खाता संख्या 00602080001527	दुकान नंबर एसएफ-03, दूसरी मंजिल, वी स्वचयण मॉल, मांग सैदपुर, जिला तिजरा, अलवर बाईपास, भिवाड़ी, राजस्थान। संपत्ति की सीमाएं - पूर्व: दोषा, पश्चिम: गलियारा, उत्तर: शॉप नं एसएफ-03, दक्षिण: शॉप नं एसएफ-04	11.07.2019 21.01.2020 (मौक्तिक)	3039816.00 + ब्याज एवं सभी अन्य खर्च - कोई राशि जमा की गयी हो तो

ऋणगृहिता को विशेषतः तथा समस्त जनता को साधारणतः सावक किया जाता है कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में ऋणगृहिता/बैंककर्ता से कोई संवेद्यहार न करे यदि कोई संवेद्यहार न करे तो सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर बंधककारक नहीं होकर अंधे रूप में होगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त सिक्युरिटी इन्फॉर्मेटिव एट्ट के नियम 8(6) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणियों व जमानतदारों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है एवं उपरोक्त बंधक संपत्तियों की नीलामी 30 दिन के बाद कर दी जाएगी।
 दिनांक: 24.01.2020 प्राधिकृत अधिकारी
 स्थान: नई दिल्ली सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड, नई दिल्ली शाखा

होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड
 CIN:U65990MH2010PTC240703
 Website: homefirstindia.com Phone No.: 180030008425
 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (2002 का अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उच्चपर भावी ब्याज और आकस्मिक शुल्कों के साथ उक्त सूचना की तिथि के 60 दिनों के भीतर 03.11.2019 तक सूचना में वर्णित राशि रु. 1,73,416/- (रुपय एक लाख तिसहत्तर हजार चा सौ और सोलह केवल) राशि का भूगतान करने के लिए ऋणी अरविंद हुकुम कुमार को बुलाने के लिए मांग सूचना दिनांक 03.11.2019 जारी की थी। ऋणी राशि का भूगतान करने में असफल रहे, एतद्वारा ऋणी/ गार्दर व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के नियम 8 व 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर 18 जनवरी, 2020 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्वारा संपत्ति के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन उच्चपर भावी ब्याज और आकस्मिक शुल्कों के साथ 03.11.2019 तक रु. 1,73,416/- (रुपय एक लाख तिसहत्तर हजार चा सौ और सोलह केवल) राशि के लिए होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। ऋणियों का ध्यान प्रतिभूति संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।

अवल संपत्ति का विवरण

प्लैट नं. 376 बिल्डिंग बी-10, ब्लॉक नं. 12, सुपर निर्मित क्षेत्र 470 वर्ग फुट के साथ, दिनेश नगर, पिलखुआ, मोदीनगर रोड, पिलखुआ रेलवे स्टेशन के पास एनएच-24, (गाजियाबाद-हापुड़ रोड)
 सीमाएं: पूर्व में : खुला पैसेज पश्चिम : प्लैट नं. सी-375
 उत्तर : सड़क और दक्षिण : प्लैट नं. ए-374

स्थान: गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी
 दिनांक: 24.01.2020 होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड

Indiabulls VENTURES
 Indiabulls Ventures Limited
 CIN: L74999DL1995PLC09631
 Regd. Office: M-62 & 63, First Floor, Connaught Place, New Delhi - 110 001.
 Email: helpdesk@indiabulls.com, Tel: 0124-6681199, Fax: 0124-6681240, Website: www.indiabullsventures.com

Sub: Statement of Deviation / Variation in utilisation of funds raised for the quarter ended December 31, 2019

Name of listed entity	Indiabulls Ventures Limited
Mode of Fund Raising	Rights Issues
Date of Raising Funds	Oct-Nov 2019
Amount Raised	Rs. 1,80,770/-
Report filed for Quarter ended	December 31, 2019
Monitoring Agency	applicable
Monitoring Agency Name, if applicable	Yes Bank Limited
Is there a Deviation / Variation in use of funds raised	No
If yes, whether the same is pursuant to change in terms of a contract or objects, which was approved by the shareholders	Not applicable
If Yes, Date of shareholder Approval	Not applicable
Explanation for the Deviation / Variation	Not applicable
Comments of the Audit Committee after review	No comment
Comments of the auditors, if any	Not Applicable

Objects for which funds have been raised and where there has been a deviation, in the following table

Original Object	Modified Object, if any	Original Allocation (Rs.)	Modified allocation, if any	Funds Utilised (Rs.)	Amount of Deviation/Variation for the quarter according to applicable object	Remarks if any
(i) Investment in Indiabulls Consumer Finance Limited (formerly IVL Finance Limited, a wholly owned subsidiary of the Company, to meet its business requirements.		1,80,770/-	No Change	Nil	Nil	Nil
(ii) Investment in Subsidiary, Indiabulls Asset Reconstruction Company Limited to support future growth of its business.						
(iii) General Corporate purposes.						

The aforesaid statement, as reviewed by the Audit Committee, is available on the website of the Company (www.indiabullsventures.com) and that of National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).

For Indiabulls Ventures Limited
 Sd/-
 Lalit Sharma
 Company Secretary
 Place: New Delhi
 Date: January 23, 2020

शाखा-निर्माण विहार, नई दिल्ली
सर्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सिडिकैट बैंक की शाखा: निर्माण विहार, नई दिल्ली द्वारा निचे वर्णित अंशों के खाले पत्र, जी.ए. को जाने के कारण तथा इसके पश्चात् सम्बन्धित सम्बन्धित दोषी ऋणियों द्वारा बकाया रुकम 15 दिवस के भीतर चुकाने हेतु नोटिस दिने जाने के उपरान्त श्री उक्त सम्बन्धित को वरिष्ठ अधिकारी के साथ अपनी कोले आईडी व पत्रों के प्रमाण पत्र की हस्तान्तरण की प्रकृति करनी होगी। 3. संपत्ति निवेशक को नीलामी समर्थन होने पर अधिकतम राशि प्रदान करने वाले को (बैंक द्वारा सीले स्वीकार करने की स्थिति में) नीलामी की 25 प्रतिशत राशि (अधोपर राशि शामिल है), उसी समर्थन के पर जन करनी होगी। 4. अग्रिम अधोपर राशि बैंक द्वारा उक्त कर दी जाएगी। 5. शिक्षा से प्राप्त दिनांक नीलामी तिथि से 15 दिवस के भीतर दोष्य 2 रुपये तक सिडिकैट बैंक की सम्बन्धित अंशों के सम्बन्धित अंशों के साथ कब्जा दिया जा सकेगा। इस अवधि में बकाया राशि जमा नहीं कराने पर कम्पनी में जमा किया जा कर जाएगा। जहाँ जहाँ है, जैसी स्थिति में नीलामी करके हिलीरी दी जाएगी। 6. अग्रिम जहाँ है, जैसी है, को स्थिति में बेचा जाएगा। 7. वाहन हस्तान्तरण व विक्रय विलेख निर्माणित करवाने में लगने वाले सभी तरह के विधि खर्च, पार्किंग चार्ज, बीमा व टैक्स इत्यादि का भूगतान पूरी तरह से खरीदार को अपने कर्तव्य मानना होगा तथा वाहन का पास किराया बोलीराशि के अतिरिक्त देय होगा। किसी भी स्थिति में कम्पनी को बिना कारण बताने पर करे, शामिल करने या निकालने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है तथा इसके विरुद्ध बैंक द्वारा कोई भी क्लेम निवेशक नहीं किया जाएगा। क्लेम क्लेम पर बैंक को किसी भी प्रकार के भार व अन्य दावों की जानकारी नहीं है। 8. अन्य नियम एवं शर्तें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नलिखित खाले समर्थन अधिसूचना की जायेगी। नियम 1 शाखा निर्माण पत्र सम्बन्धित शाखा से प्राप्त किया जा सकता है तथा किसी भी तरह की अन्य आवश्यकता/सूचना के लिए निम्नलिखित प्राधिकृत अधिकारी या शाखा प्रबंधक, कवच सिटीयोरिटी एडवोकेटिंग का होना। बैंक या सम्बन्धित एजेंसी से सम्पर्क कर सकते हैं। संपन्न उल्लेखित एजेंसी को वाहन सुसुदानी के परिधान स्वयं परिवहन तक समस्त उल्लेखित बोलीदाता का होना। बैंक या सम्बन्धित एजेंसी का किसी भी प्रकार का क्रेडिट या नीलामी प्रकृति नहीं होगी। नोट - इस सूचना द्वारा सम्बन्धित दोषी ऋणियों/जमानतदारों को भी सूचित किया जाता है कि वे नीलामी से पूर्व ऋण राशि जमा करवाकर नीलामी की प्रक्रिया से बच सकते हैं अथवा अपने साथ क्रय का को अपने वाहन को क्रय करने हेतु वाहन का उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं।
 दिनांक : 24.01.2020 प्राधिकृत अधिकारी
 स्थान : निर्माण विहार, नई दिल्ली जे.टी.ए. मॉल, जगतपुरा, जयपुर (राज.) 302017 सिडिकैट बैंक

क्र. सं.	ऋणियों का नाम	चल वाहन का प्रकार	बकाया राशि रु. व दिनांक	चल वाहन का आरक्षित मूल्य/अवश
----------	---------------	-------------------	-------------------------	------------------------------